



सत्यमेव जयते



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 1979/आषाढ़ 8, 1901

No. 211]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 1979/ASADHA 8, 1901

इस भाग में भिन्न एक संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

राजस्वविभाग

नई दिल्ली, तारीख 29 जून, 1979

अधिसूचनाएं

सीमा-शुल्क

मा० का० नि० 419(अ) :—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्नी की संस्था द्वारा वार के निम्नलिखित के निम्न भारत में आयात किये गए वस्तुओं के सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से और उक्त पश्चात् कथित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है :—

- आयात करने वाले संस्थान का प्रधान प्रत्येक मामले में यह प्रमाणित करे कि मान वार ग्रेव के अनुक्षण के लिए ही है और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं;
- मान विशेषी दाता से प्राप्त सद्भाविक दान है;
- रक्षा मंत्रालय से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए कि आयातित मान पूर्णतः 'वार ग्रेव' के अनुक्षण के लिए आशयित है; और

(iv) इस प्रकार छूट प्राप्त मान का न तो विक्रय किया जाएगा और न किसी अन्य प्रकार व्ययन किया जाएगा।

[सं० 147/एफ सं० 463/68/79-सी० नु० v]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th June, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 419(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods imported by an institution into India for maintenance of war graves, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and from the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned act, subject to the following conditions that—

- the head of the importing institution certifies in each case that the goods are intended for maintenance of war graves and will not be used for any other purpose;
- the goods are bonafide gifts from a donor abroad;
- a certificate is produced from the Ministry of Defence that the goods imported are intended solely for maintenance of war graves; and

(iv) the goods so exempted will not be sold or otherwise disposed of.

[No. 147/F. No. 463/68/79-Cus. V]

सां. कां. निं. 420 (अ) — केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 31 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 104-सीमा-शुल्क तारीख 10 मई, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड अनुसूची में, क्रम सं. 223 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"224 सं. 147 सीमा-शुल्क, तारीख 29 जून, 1979।"

[सं. 148/एफ. सं. 463/68/79-सी. शु. व]

G.S.R. 420(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 31 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 104-Customs, dated the 10th May, 1979 namely:—

In the Schedule annexed to the said notification after Serial No. 223 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"224 No. 147-Customs, dated the 29th June, 1979".

[No. 148/F. No. 463/68/79-Cus. V]

सां. कां. निं. 421 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन किसी प्राधिकारी के समक्ष परीक्षण, प्रदर्शन या प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए भारत में आयातित माल को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उप पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा-शुल्क से और पञ्चानु कथित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहने हुए, छूट देती है, अर्थात्:—

(क) यह कि आयात के समय प्रत्येक मामले में रक्षा मंत्रालय के प्रवर सचिव, महायुक्त सीमा-शुल्क कलक्टर के समक्ष यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए कि आयातित माल परीक्षण, प्रदर्शन या प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिये है; यह कि उस माल को छोड़ कर जिसके लिये रक्षा मंत्रालय के प्रवर सचिव ने यह प्रमाणित किया हो कि उसका प्रयोग परीक्षा, प्रदर्शन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया में आवश्यक है किया गया है शेष माल को आयात करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जैसा प्रत्येक मामले में सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर अनुज्ञान करे, पुनः निर्यात कर दिया गया है और यह कि इस प्रकार पुनः निर्यात के करने में असफल होने पर, उद्ग्रहणीय शुल्क संचित किया जाएगा; और

(ख) यह कि उस माल को छोड़ कर जिसके लिए रक्षा मंत्रालय के प्रवर सचिव ने यह प्रमाणित किया हो कि उसका प्रयोग

परीक्षण, प्रदर्शन और प्रशिक्षण का प्रक्रिया में वास्तव में किया गया है, शेष माल को आयात करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जैसा प्रत्येक मामले में सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर अनुज्ञान करे, निर्यात कर दिया गया है।

[सं. 149/एफ. सं. 458/20/79-सी. शु. व]

G.S.R. 421(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods imported into India for the purpose of trial, demonstration or training before any authority under the Ministry of Defence in the Government of India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act, subject to the following conditions, namely:—

(a) that a certificate from the Under Secretary in the Ministry of Defence is produced to the Assistant Collector of Customs in each case at the time of importation that the goods imported are for the purpose of trial, demonstration or training, that such goods, except those which are certified by the Under Secretary in the Ministry of Defence as having actually been consumed in the process of trial, demonstration or training are re-exported within a period of six months from the date of importation or within such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow in each case and that in case of failure to so re-export, duty leviable shall be paid; and

(b) such goods, except those which are certified by the Under Secretary in the Ministry of Defence as having actually been consumed in the process of trial, demonstration or training, are re-exported within a period of six months from the date of importation or within such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow in each case.

[No. 149/F. No. 458/20/79-Cus. V]

सां. कां. निं. 422 (अ) — केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 31 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 104-सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड अनुसूची में, क्रम सं. 224 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"225 सं. 149 सीमा-शुल्क, तारीख 29 जून, 1979।"

[सं. 150/एफ. सं. 458/20/79-सी. शु. व]

रक्षा मंत्रालय के प्रवर सचिव

G.S.R. 422(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 31 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 104-Customs, dated the 10th May, 1979 namely:—

In the Schedule annexed to the said notification after Serial No 224 and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely:—

"225 No. 149-Customs, dated the 29th June, 1979".

[No. 150/F. No. 458/20/79-Cus. V]

S. RASU, Under Secy.